



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]
No. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2012

फा. सं. सम्मे. 5(11)/2004/के.एन./20020.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, इसके आगे "योजना" के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (1) के उपबंधों के अनुसार एवं भारत के राजपत्र, खंड III, भाग 4 में क्रमशः दिनांक 6-6-2009 तथा 7-1-2010 को प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(11) 2004/के.एन./4813, दिनांक 27-5-2009 तथा अधिसूचना संख्या 5(11)2004/के.एन./78265, दिनांक 22-12-2009 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा :—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, कमरा सं. 414, चौथा तल, विकास सौध, बंगलौर-560001	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4(1)(ए) के अन्तर्गत]
2.	उप श्रम आयुक्त, बंगलौर, प्रभाग-2	सरकारी सदस्य [अनुच्छेद 4(1)(बी) के अन्तर्गत]
3.	सहायक श्रम आयुक्त, गुलबर्गा उप प्रभाग-1	
4.	श्री नईम नूर कार्यकारी निदेशक, प्रेस्टीज ग्रुप द फौलकॉन हाऊस, नं. 1, मेन गार्ड क्रॉस रोड बंगलौर-560001	सदस्य नियोक्ता के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4(1)(बी) के अन्तर्गत]
5.	श्री एम. यू. गणपति, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन), वोल्वो इंडिया प्राईवेट लि. नं. 65/2, बागमेन टैक पार्क, ब्लॉक-ए, पांचवाँ तल, पेरिन भवन, सी.वी. रमण नगर, बंगलौर-560093	

6. श्री के. रामचन्द्र पूंजा,
अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
संख्या 458, ओ.टी.सी. रोड, काटन पेट, बंगलौर
7. श्री जी. सी. पेंटेश कुमार
ए.आई.सी.सी. की गतिविधियों में सहयोगी, एटक,
नं. 35, चौथा क्रॉस, 25 फुटा रोड, सरस्वतीपुरम
एक्सटेंशन उलसुर, बंगलौर-560008
8. श्री के. वेंकटरमन अप्पा,
नं. 859, पांचवा क्रॉस, पांचवा मेन इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज,
बंगलौर-560038
9. श्री बी. विजय कुमार,
दूसरा क्रॉस, टमेगौड़ा एक्सटेंशन, होसकोट टाऊन,
बंगलौर ग्रामीण जिला
10. श्रीमति गायत्री गौड़ा,
हर्वत्ता, कुमता, उत्तर कन्नड़ जिला
11. श्री सिद्धालिंगा रेड्डी उलेसुगुर
मकान संख्या 5-1-127, मार्फत सिद्धलिंगेश्वर
फटीलाईजर्स, सुभाष चौक चिट्टापुर रोड,
यादगीर तालुक एवं जिला, कर्नाटक राज्य
12. श्री जी. कृष्णाप्पा
नं. 98, एस.एल.एन. टेंपल रोड, जिगानी अनेकल
तालुक बंगलौर शहरी जिला-560105,
कर्नाटक राज्य
13. श्री एन. आर. राजन्ना,
केन्नामेटल, विडिया, नं. 12, नागसान्द्रा पोस्ट,
बंगलौर-560073
14. श्री पी. मुन्नीरेड्डी,
बानाहल्ली गांव, चन्द्रपुरा पोस्ट, अनेकल तालुक,
बंगलौर शहरी जिला
15. श्री नासिर हुसैन सुपुत्र हुसैन साब
मकान नं. 2-7-170, सादिकिन मस्जिद एरिया के पिछे,
वाडी जंक्शन-585225, चिट्टापुर तालुक,
गुलबर्गा जिला
16. श्री अरविंद कुमार अराली, सुपुत्र टी. शमाराव अराली
नं. एल.आई.जी. 23 (हुडको),
के.एच.बी. कालोनी, बिदर-585401
17. श्री जी. सम्पत कुमार
नं. 22/12, चौथा मेन रोड, एस.के.गार्डन,
वेनसन टाऊन, बंगलौर-560046

सदस्य
कर्मचारियों के प्रतिनिधि
[पैरा 4 (1) (डी) के अन्तर्गत]

अतिरिक्त सदस्य
नियोक्ता के प्रतिनिधि
[अनुच्छेद 4 (1) परंतुक के अंतर्गत]

अतिरिक्त सदस्य
कर्मचारियों के प्रतिनिधि
[कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के
अनुच्छेद 4 (1) परंतुक के अन्तर्गत]

2. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (कर्नाटक एवं गोवा), कार्यालय स्थान क्षेत्रीय कार्यालय-बंगलौर, कर्नाटक, क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.), कर्नाटक राज्य के सचिव होंगे।

3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यालय, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। तथापि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती।

4. यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।

आर. सी. मिश्र, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन III/4/105/12/असा.]

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2012

F. No. Conf. 5(11) 2004/KN/20020.—In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of Paragraph 4 read with Paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(11)2004/KN/4813, dated 27-5-2009 and Conf. 5(11)2004/KN/78265, dated 22-12-2009 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, which was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 6-6-2009 and 7-1-2010, the Chairman, Central Board of Trustees, (EPF) hereby constitutes the Regional Committee for the State of Karnataka consisting of the following persons, namely :—

Sl. No.	Name & Designation of the Member	Appointment as
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary to the Govt. of Karnataka, Labour Department, Room No. 414, 4th Floor, Vikasa Soudha, Bangalore-560001.	—Chairman [Under Para 4(1)(a)]
2.	Deputy Labour Commissioner, Bangalore, Division-2.	—Official Members, [Under Para 4(1)(b)]
3.	Assistant Labour Commissioner Gulbarga Sub-Division.	
4.	Sri Nayeem Noor, Executive Director, Prestige Group, The Falcon House, No. 1, Main Guard Cross Road, Bangalore-560001.	
5.	Sri M. U. Ganapathy, Senior Manager-Admn., Volvo India Pvt. Ltd., No. 65/2, Bagmane Tech. Park, Block-A, 5th Floor, Parin Building, C.V. Raman Nagar, Bangalore-560093.	—Member (Employers' side) [Under Para 4(1)(c)]
6.	Sri K. Ramachandra Poonja, President, Bharatiya Mazdoor Sangh, No. 458, OTC Road, Cotton Pet, Bangalore.	—Member (Employees' side) [Under Para 4(1)(d)]
7.	Sri G. C. Pentesh Kumar, Associated with AICC Activities, AITUC, No. 35, 4th Cross, 25 Feet Road, Saraswatipuram Extension Ulsoor, Bangalore-560008.	
8.	Sri K. Venkataramanappa, No. 859, 5th Cross, 5th Main, Indiranagar, 1st Stage, Bangalore-560038.	Additional Member (Employers Representatives) [Under proviso to para 4(1)]
9.	Sri V. Vijaya Kumar 2nd Cross, Tammegowda Extension, Hoskote Town, Bangalore Rural District.	

(1)	(2)	(3)
10.	Smt. Gayatri Gowda Heravatta, Kumta, Uttara Kannada District	Additional Member (Employers Representative) [Under Proviso to para 4(1)]
11.	Sri Siddalinga Reddy Ullesugur House No. 5-1-127, C/o Siddalingeshwar Fertilizer Subash Chowk Chittapur Road, Yadgir Taluk and District Karnataka State	
12.	Sri G Krishnappa No. 98, SLN Temple Road, Jigani, Anekal Taluk, Bangalore Urban Distt.-560105 Karnataka State District Karnataka State	
13.	Sri N. R. Rajanna Kennametal, Widia, No. 12, Nagasandra Post, Bangalore-560073	Additional Member (Employees' Representatives) [Under proviso to para 4(1)]
14.	Sri P. Munireddy Banahalli Village, Chandrapura Post, Anekal Taluk, Bangalore Urban Distt.	
15.	Sri Nasir Hussain S/o Hussain Sab House No. 2-7-170, Behind Sadikin Masjid Area, Wadi Junction-585225, Chittapur Taluk, Gulbarga District	
16.	Sri Arvind Kumar Arali S/o T. Shamarao Arali, No. LIG-23 (HUDCO), KHB Colony, Bidar-585401	
17.	Sri G Sampath Kumar No. 22/12, 4th Main Road, S. K. Garden, Benson Town, Bangalore-560046.	

2. The Additional Central Provident Fund Commissioner (Karnataka and Goa) Office at Regional Office, Bangalore, Karnataka, shall be the Secretary of the Regional Committee (EPF) for the State of Karnataka.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

R. C. MISHRA, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT. III/4/105/12/Exty.]